

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मार्च, 2021 महीने की प्रमुख उपलब्धियां

मैरीटाइम इंडिया समिट-2021

माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 02 मार्च, 2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मैरीटाइम इंडिया समिट 2021' का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था और दिनांक 2 से 4 मार्च, 2021 तक वर्चुअल प्लैटफार्म पर इसका आयोजन किया गया था। मैरीटाइम इंडिया समिट के लिए 22 मैरीटाइम पत्तनों/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न उप क्षेत्रों में 3.39 लाख करोड़ रु. या 47.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 486 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समिट के लिए 2.24 लाख करोड़ रु. अथवा 31.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश योग्य 400 परियोजनाओं का खुलासा किया गया। समिट के तीन दिनों के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी।

माननीय प्रधान मंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की शुरुआत की, जिसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रत्येक हित धारक से संबंधित रणनीतियों के साथ अगले दशक में समुद्री क्षेत्र द्वारा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य भी शामिल है। सागर-मंथन: मर्कन्टाइल मैरीटाइम डोमेन अवेरनेस सेंटर (एमएम-डीएसी), जो समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव क्षमता, संरक्षण तथा समुद्री पर्यावरण की हिफाजत बढ़ाने के लिए एक सूचना प्रणाली है, की भी शुरुआत की।

एमआईएस 2021 की प्रमुख विशेषताएं:

- लगभग 1.90 लाख प्रतिनिधियों ने समिट में पंजीकरण किया
- 11 देशों से 16 अंतर्राष्ट्रीय मंत्रियों ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया।
- कुल छह केंद्रीय मंत्रियों, तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों और दो राज्य मंत्रियों ने विभिन्न सत्रों में भाग लिया।
- कुल 55 सीईओ ने सीईओ फोरम में भाग लिया, जिनमें 31 अंतर्राष्ट्रीय और 24 भारतीय सीईओ शामिल थे।
- कुल 22 सीईओ ने सीईओ राउंडटेबल में भाग लिया, जिनमें 11 अंतर्राष्ट्रीय और 11 भारतीय सीईओ शामिल थे।
- समिट के दौरान कुल 185 वक्ताओं ने विभिन्न थीमैटिक सत्रों में भाग लिया, जिनमें 124 भारतीय वक्ता और 61 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल थे।
- कुल 110 प्रदर्शकों ने 18 पैवेलियनों और 107 बूथों में समिट में भाग लिया, जिससे 7500 से अधिक बीटूबी बैठकें हुईं।
- तीन दिनों के समिट के अंत में कुल 70500 से अधिक विजिटर दर्ज किए गए।

पत्तन निष्पादन

- i) मार्च, 2021 के दौरान बीओसी पत्तन ने 81,013 टीईयू के कंटेनरों की संभलाई की जो कि अगस्त, 2019 के दौरान 80,474 टीईयू के कंटेनर की संभलाई के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से अधिक है और यह इस पत्तन में अब तक एक महीने में कंटेनर टर्मिनल द्वारा संभाले गए टीईयू की सबसे अधिक संख्या है। पत्तन ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान तटीय कंटेनरों के 1,78,030 टीईयू के पिछले रिकार्ड को पार करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान तटीय कंटेनरों के 2,11,944 टीईयू की संभलाई की।
- ii) नव मंगलूर पत्तन में वर्ष 2019-20 के 2.27 मिलियन टन के पहले के रिकार्ड को पार करते हुए वर्ष 2020-21 में रिकार्ड 2.29 मिलियन टन कंटेनर यातायात की संभलाई हुई।
- iii) चेन्नई पत्तन ने मार्च, 2020 के दौरान संभाले गए 3.58 एमएमटी की तुलना में मार्च, 2021 महीने में 4.82 एमएमटी कार्गो की संभलाई करते हुए 34.63% वृद्धि दर्ज की। इस पत्तन में वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की 1383971 टीईयू की मात्रा को पार करते हुए 1386926 कंटेनरों (टीईयू) की संभलाई की।
- iv) जवाहरलाल नेहरू पत्तन में संभाला गया कुल यातायात मार्च, 2020 के 5.93 मिलियन टन की तुलना में मार्च, 2021 के महीने में 7.33 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष के समान महीने के कुल यातायात की तुलना में 23.53% अधिक है। इस महीने के यातायात में पिछले वर्ष के समान महीने के 0.65 मिलियन टन की तुलना में 0.76 मिलियन टन बल्क कार्गो शामिल है। टीईयू के संदर्भ में, जेएनपीटी ने मार्च, 2021 के महीने के दौरान 527,792 टीईयू के संभलाई की। पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में कंटेनर यातायात में 28.69% तक की वृद्धि हुई है।
- v) मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान जेएनपीटी ने पत्तन परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी अंतरण और जेएनपीटी एसईजेड में भूखंडों के विकास के लिए संभावित निवेशको के साथ लगभग 27000 करोड़ रू की राशि के 30 एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं।

सागरमाला

हमारे देश की तटीय क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरतट समृद्धि नामक विस्तृत समग्र सहभागिता परियोजना तैयार की है। ऐसा करने के लिए, इस मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से परामर्श कर, तटीय समुदायों के हित के लिए सहभागिता आधार पर 18 योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने समुद्री राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, राज्य समुद्री बोर्डों, महापत्तनों, जिलाधीशों और तटीय जिलों/निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों से भी विस्तृत परामर्श किए। परामर्श के बाद सागर समृद्धि योजना के भाग के रूप में 3,62,229 करोड़ रू. की अनुमानित लागत वाली कुल 1,049 परियोजनाओं की पहचान की गई है। ये परियोजनाएं 4 प्रमुख श्रेणियों अर्थात् तटीय अवसंरचना विकास, तटीय पर्यटन, तटीय औद्योगिक विकास और तटीय समुदाय विकास में हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन

- i) बांग्लादेश के पीआरएन ग्रुप के फ्रुट ड्रिंक के 40,000 कार्टन (512 एमटी) का पहला वाणिज्यिक कंसाइमेंट नारायणगंज, बांग्लादेश के विस्तारित प्रवेश पत्तन घोराशाल से 16 मार्च, 2021 को चला और जीआर जेट्टी कोलकाता पहुंचा।
- ii) सिदिंघाट पांडु ब्रोड गेज रेलवे का वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 28 मार्च, 2021 को 10 वैगनों में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) वैजाग के 644 एमटी के स्टील राउंड बार के पहले कंसाइमेंट को प्राप्त करते हुए शुरू हुआ।
- iii) पांडु और अन्य स्थानों पर आईडब्ल्यूआई तथा रेलवे अवसंरचना के संयुक्त उपयोग के लिए आईडब्ल्यूआई और पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के बीच दिनांक 31 मार्च, 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- iv) नियत सेवाएं (i) एम.वी. लाल बहादुर शास्त्री से 58 टन राईस हस्क के साथ वाराणसी और पटना से कोलकाता तक दिनांक 21 मार्च, 2021 को पूरी की गई (ii) एम.वी. आरएन टैगौर से पटना से कोलकाता तक दिनांक 23 मार्च, 2021 को शुरू की गई।
- v) 66 एमटी चूना पत्थर से लदे बांग्लादेशी जलयान एम.वी.मुस्लिम नौपरिभन के साथ करीमगंज से बांग्लादेश में नारायणगंज तक कार्गो परिवहन जारी रहा। इसी प्रकार 364 एमटी स्टोन चिप्स से लदे बांग्लादेशी जलयान एमबी अल्लाहार रहमत ईएक्सपी-3 और एमबी सहामदीना -1 के साथ दूबरी से चिल्मारी तक स्टोन चिप्स का परिवहन जारी रहा।
- vi) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर रो-रो/ रो-पैक्स प्रचालन शुरू किए गए:
- क) एमवी जेएफआर जेकब - गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच
- ख) एमवी बोब खातिंग - धुबरी और हतसिंगीमारी के बीच
- ग) एमवी रानी गायदीनलू- नेमाती और कमलाबारी (माजुली) के बीच
- घ) एमवी सचिन देव बर्मन - नेमाती और कमलाबारी (माजुली) के बीच
- ङ) एम.वी. आदि शंकरा - विल्लिंगटन आईलैंड और बोलघाटी के बीच
- च) एम.वी. सी वी रमन - विल्लिंगटन आईलैंड और बोलघाटी के बीच

पोत परिवहन

बोर्ड पर केवल महिला अधिकारियों द्वारा नौचालन करने वाला एससीआई टैंकर एम.टी स्वर्ण कृष्णा

एससीआई के वर्तमान हीरक जयंति समारोह के भाग के रूप में, और दिनांक 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए, एससीआई ने एक ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया जब श्री मनसुख मांडविया, माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिनांक 6 मार्च, 2021 को जेएनपीटी लिक्विड बर्थ जेट्टी से "बोर्ड पर केवल महिला अधिकारियों द्वारा नौचालन करने वाला" एससीआई के कूड आईल वाहक - 'एमटी स्वर्ण कृष्णा' - का वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ किया।

अंडमान और निकोबार प्रशासन को सिंधु, 500 पैक्स यात्री जलयान सौपना

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने दिनांक 27 मार्च, 2021 को अंडमान और निकोबार प्रशासन को "सिंधु" नामक पहला 500 पैक्स सह 150 टन कार्गो जलयान सौपा। यह परियोजना सरकार की "मैक इन इंडिया" पहल का भाग है।